

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक 27.08.2021\***

**\*थाना बण्डा पुलिस ने 24 के अन्दर किया चोरी की खुलासा,\***

**\*महिला सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के आभूषण बरामद।\***

दिनांक 25.08.2021 को थाना बण्डा क्षेत्र के ग्राम मोहद्वीनपुर श्रीमती जसविन्दर कौर पत्नी अंग्रेज सिंह ने चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना बण्डा पर मु0अ0सं0-546/2021 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया गया है।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी पुवायां श्री बीएस वीर कुमार के पर्यवेक्षण व थाना बण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गहनता से छानबीन करने पर दिनांक 26.08.2021 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पोखरपुर पेट्रोल पम्प के पास एक महिला व एक पुरुष को आवश्यक बल प्रयोग पकड़ लिया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया माल/जेवरात बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर दोनों बताया कि हम दोनों ने गांव मोहद्वीनपुर में एक मकान में घुसकर रूपये व मोबाइल एवं जेवरात चोरी किये थे तथा रूपये खर्च हो गये और मोबाइल को हमने तोड़कर कहीं झाड़ियों में फेंक दिया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

1. रंजीत पुत्र लालाराम नि0ग्रा0 धर्मगदापुर जप्ती थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर।
2. प्रिया शर्मा उर्फ क्षमा पुत्री बलवन्त राय नि0ग्राम मोहद्वीनपुर थाना बण्डा शाहजहाँपुर।

**\*आपराधिक इतिहास\***

- 1- मु0अ0सं0 546/2021 धारा 380/411 भादवि थाना बण्डा बनाम रंजीत आदि 02 नफर उपरोक्त

**\*माल बरामदगी का विवरण-\***

- 1- एक जोड़ी पायल सफेद धातु
- 2- एक मंगलसूत्र पीली धातु,
- 3- एक जोड़ी जेवरी सफेद धातु बच्चे की,
- 4- तीन अंगूठी पीली धातु,
- 5- एक गले की चैन सफेद धातु,
- 6- एक आधार कार्ड, पैन कार्ड।

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 2- उ0नि0 श्री रमेश कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 3- आरक्षी 1893 पुष्पेन्द्र कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 4- आरक्षी 1859 प्रेमपाल सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 5- आरक्षी 2278 कुलदीप सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
- 6- महिला आरक्षी 2446 हिना थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,